

HIN1A05a – Fiche d'exercices N° 10 – Transcription

Exercice 1

- ओह नहीं। न न न नहीं रुको रुको मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, रुको अरे रुको। आह .. हे दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो।

Exercice 2

- रोनी सूरत क्यों बना रखी है?
- मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, सारे दोस्तों से भी। शायद हमेशा के लिए।
- पर तुम्हें कैसे पता ?
- वह .. मैं .. आप इस किताब में सिर्फ़ एक तस्वीर हैं। मैं आपसे बात भी क्यों कर रहा हूँ।
- क्योंकि तुम अपने परिवार से बिछड़ गए हो। तुम अकेले हो गए हो।
- लेकिन मुरदे बोलते नहीं।

Exercice 3

- I'm resigning.
- नहीं कन्ट्रैक्टर साहब।
- अरे अरे अरे, जाने दीजिए, दूसरा मिल जाएगा।
- तू चुप करा।

Exercice 4

मंजीत मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटी, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम यहाँ बदले के लिए आई थीं, सो (=वह) तुम्हें मिल गया। अब इन लोगों को अपनी ज़िन्दगी जीने दे बेटी, इन लोगों को अपनी ज़िन्दगी जीने दे

Exercice 5

- यह एक अजीब-सी मशीन है। मुझे मेरे एक दोस्त ने तोहफ़े में दी थी। इस लाल रोशनी से निकलनेवाली किरणें आपके दिमाग़ पर असर करेंगी ख़ास तौर से आपकी याददाश्त पर।

Exercice 6

- यह आदमी India का जासूस ? agent राजेश राठौड़ है। आज से करीब बाईस साल पहले, अन्वार अली और मैंने लाहौर से जाने वाली बस से उसे उतारकर गिरफ़्तार किया था। हमें intelligence से report मिली थी कि यह आदमी पाकिस्तान के खिलाफ़ साजिश कर रहा था।

- Good !

Exercise 7

- अब हम संभाल लेंगे।
- तुम कहाँ से आए हो ?
- A.N.S division 6।
- Division 6 ? मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना।
- अच्छा। इन में से कौन है D ?
- कह नहीं सकता K।

Exercise 8

- क्यों आए हो तुम हमारे यहाँ ?
- सीखने के लिए आया हूँ।
- हमने आसमानी लोगों को पहले भी सिखाया। वह सोचते हैं वह नावी के बारे में सब जानते हैं।
- पर मैं कुछ नहीं जानता।

Exercise 9

- सच सच बताओ, उस रात तुम दोनों हवेली क्यों गए थे ?
- वह actually sir, वह ...
- राज, छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। Sir हम उस रात उस बच्चे को लौटाने गए थे।
- वह लडका हमें मुम्बई में मिला था sir। पच्चीस लाख के इनाम के लिए हम लोग उसे गोआ पहुँचाने आए थे।
- अब एक बात बताओ। जब तुम लोग गोआ flight से आनेवाले थे तो फिर बस से क्यों आए ?
- क्योंकि airport पे होटल Alfredo के मालिक ने बच्चे को पहचान लिया था।
- तुम्हें कैसे पता था कि वह Alfredo का मालिक है ?
- उसने अपने होटल की matches पे अपना signature करके दिया था। और कहा था कि अगर ("si") वह उसके होटल में दिखाएँगे तो हमें discount मिले।

Exercise 10

- हमने बहुत कोशिश की Rahul मगर उसकी internal bleeding इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। वह जानती थी। मैंने उससे पहले ही कहा था कि उसकी delivery में complications होंगी लेकिन वह यह भी जानती थी कि तुम्हें यह बच्चा कितना चाहिए।

Exercise 11

- तुम कहाँ जा रही हो ?
- इस नरक से बाहर। मैं Selfridge और Kwaridge को दखल-अंदाज़ी नहीं करने दूँगी। Site 26 में एक mobile link है जहाँ से हम काम कर सकते हैं, ऊपर पहाड़ों में।